



हमारे बारे में

Hindi



कौन है 48-h?

48-h एक गैर-लाभकारी नीलामी प्लेटफॉर्म है, जो हांगकांग में स्थित है। 2019 में यह शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य यह है कि सांग्रहकतामपूरी दुकानों से आसानी से और जल्दी से अपनी चीजें बेच सकें या खरीद सकें। यह व्यावसायिक व्यापार के बाहर न्यूनतम लागत के साथ चीजें बेचने और खरीदने का मौका देता है। कैसा लगा।

- 48-h विभिन्न गैर-लाभकारी संगठनों और संघों के साथ मिलकर काम करता है।
- 48-h ऑक्शंस फेयर ट्रेड एसोसिएशन का सदस्य है।
- 48-h यह 10 संयुक्त राष्ट्र नगरियों को ननष्टपक्ष व्यापार के भए सिथपन करता है।
- 48-h बहुत ज़्यादा दान पर ननिथर करता है।
- 48-h सेवा, मध्यस्थता और समाधान किसी भी कमीशन से मुक्त है।
- 48-h वास्तव में उपयोगकर्ता 48-h हैं।

जोखिमों को बाहर करने के लिए, हमारी रेटिंग-प्रणाली के साथ भागीदारी सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 48-h तक सख्त विनियमन, दी गई रेटिंग, पारदर्शिता, निश्चितता और गति विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए सर्वोपरि हैं। इसलिए उपयोगकर्ता वेबसाइट के इष्टतम कामकाज की गारंटी देते हैं।

1% के लिए 
48-h गैर-लाभकारी और निःशुल्क,
दान पर निर्भर
संतुष्ट हैं?
रखरखाव के लिए 1% दान देकर
हमारा सहयोग करें / हमारी सेवा



48-h का मतलब है आराम

- 48-h एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ विक्रेता और खरीदार मिलते हैं और सौदा करते हैं
- 48-h उपयोगकर्ता कोड के अंतर्गत पृथक व्यवहार को दर्शाता है
- 48-h निःशुल्क है, भाग नहीं लेता है, न ही शुल्क या प्रावधान लेता है
- 48-h उपयोगकर्ताओं को मुफ्त उपयोग के लिए फीडबैक नियमों का पालन करना होगा
- 48-h प्रतिस्पर्धा को सक्रिय करने के लिए नीलामी में कम शुरुआती कीमतों का पालन किया जाता है
- 48-h न्यूनतम शिपमेंट लागत की गारंटी देता है
- 48-h न्यूनतम लागत के लिए संयुक्त शिपमेंट को प्रोत्साहित करता है
- 48-h क्रेता और विक्रेता के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सीधा संपर्क
- 48-h आपकी सुविधा के लिए, निःशुल्क अलर्ट-सेवा
- 48-h निष्पक्ष व्यापार के लिए 10 संयुक्त राष्ट्र संशोधनों का समर्थन करता है.

महत्वपूर्ण

48-h साइट के उपयोगकर्ताओं को एक से अधिक खाता या उपयोगकर्ता नाम रखने की अनुमति नहीं है। खाता और उपयोगकर्ता नाम केवल 48-h की अनुमति के साथ बदला जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 48-h के भीतर खाते और किसी भी अन्य सेवा को अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।



अनुक्रमणिका 48-एच फ़ाइल में . . .

48-h होमपेज:

स्विच करने का समय, 48-h नीलामियां

अत्यावश्यक ? 48-h के
भीतर प्रत्यक्ष बिक्री की गारंटी आपके संग्रहणीय,
48-h, नए संग्रहणीय के साथ

अपने संग्रहणीय वस्तुओं के लिए गेटवे हांगकांग,
48-h के भीतर बेचें/खरीदें

हमारे अनूठे
48-h अमृत का प्रयोग करें
अनिवार्य रेटिंग
से बनाया गया।

दैनिक नीलामी
यहां खोजें कि आपके पास क्या है
हमेशा ढूँढ रहा था

अत्यावश्यक?
गारंटीकृत 48-h के भीतर बेचा गया
0% लागत। कोई शुल्क नहीं,
कोई वैट नहीं और कोई कर नहीं।

त्वरित और सबसे बुद्धिमान के लिए
तुरंत और सबसे बुद्धिमानी के लिए
गेटवे हांगकांग के माध्यम से

नीलामी श्रेणियां

हमेशा 2 नीलामियां चलती रहती हैं, एक आधी रात को शुरू होती है कल
अगली आधी रात को, 3 नीलामी के साथ श्रेणियाँ। नीलामी संख्या
दिनांक
और अवधि है 48-h हैन्यूमिज़माटिक

मुद्रा संग्रहण

सिक्के
बैंक नोट

मिश्रित

आर्ट्स एक
पुस्तकें
दिखावा
जेवर
खिलौना
अन्य चिकित्सीय

डाक टिकट



डीलर और कुर्की के लिए बेहतरीन के साथ अनूठी नीलामी, अधिकांश व्यवस्था और विभिन्न दृश्यों के साथ मैक्स हवेलर फाउंडेशन फॉर फेयर ट्रेड द्वारा प्रतिष्ठित।

0% लागत पर खरीद और बिक्री
सबसे कम शिपिंग लागत होती है

सबसे तेज खरीद और बिक्री
परिणाम फ्री अलर्ट सर्विस

+ + + +

पृष्ठ सं।

- 1 हमारे बारे में
- 3 घर
- 2 स्पष्टीकरण
- 4 पंजीकरण और लॉग इन करें
- 6 यह काम किस प्रकार करता है
- 10 FAQ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 16 जाँच करना
- 17 की शर्तें और नियम
- 20 - 23 बिक्री की शर्तें

पंजीकरण करवाना

लिंग खरीदार विक्रेता
 पुरुष महिला

..... प्रथम नाम अंतिम नाम

..... ईमेल पता मो | * एसएमएस के लिए पुष्टि पता
देश / राज्य / डाक कोड / नगर पालिका / गली

एनआर पासवर्ड चुनें / पासवर्ड की पुष्टि करें

नियम और शर्तें स्वीकार करें
 एक खाता बनाएँ साइन इन करें

ट: अपने पंजीकरण के साथ आप घोषणा करते हैं कि आपने हमारे सामान्य यमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, जैसा कि वे इस वेबसाइट पर खे गए हैं। आपके पंजीकरण की पुष्टि आपके उपयोगकर्ता कोड के साथ आपके ईमेल पते पर भेजी जाएगी। डेटा कभी भी तृतीय पक्षों के साथ साझा हीं किया जाता *.



यह काम किस प्रकार करता है

48-h विवेक

विवेक महत्वपूर्ण है। 48-एच नीलामी मंच केवल उपयोगकर्ता कोड के तहत ट्रेड करता है। नीलामी समाप्त होने के बाद, खरीदार और विक्रेता द्वारा/के लिए नाम और पते का स्वचालित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है।

गोपनीयता नीति।

48-h पर डील करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। 48-एच सभी प्रतिभागियों के प्रति पूर्ण गोपनीयता दायित्व प्रस्तुत करता है। केवल धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों के मामले में न्यायिक अधिकारियों के साथ 48 घंटे सहयोग करेंगे (हमारी गोपनीयता नीति देखें)

रेटिंग

48-h प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए 48-h रेटिंग सिस्टम में भागीदारी की आवश्यकता होती है। हमारे स्क्रीनिंग सिस्टम के साथ मिलकर, यह 48-एच पर सुरक्षित व्यापार का आधार है।

सुरक्षा

क्योंकि सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवहार 48-h के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, कृपया निम्नलिखित वीडियो देखें और संलग्न पाठ को ध्यान से पढ़ें।


पहले स्क्रीनिंग के बाद उपयोगकर्ता 48-एच पर व्यापार कर सकता है। दिखाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार सौदा पूरा होने के साथ, उच्च स्तर की सुरक्षा की गारंटी है। सौदे को रेट करने के दायित्व के साथ, सभी 24-घंटे सुरक्षित और सुरक्षित व्यवहार करने में योगदान करते हैं

खरीदार और विक्रेता के लिए शिपमेंट में अधिक निश्चितता की सलाह सभी मामलों में है: खरीदार/विक्रेता को हमेशा 48-h के माध्यम से टेक्स्ट करना चाहिए। विशेष रूप से साथी को सूचित करने के लिए कि पैसा या सामान भेजा गया है।

कैसे, विक्रेता के लिए? विक्रेता दिखाता है कि क्या पैक किया जा रहा है, इसे कैसे पैक किया गया है और टैप किया गया है और तिपाई पर चल रहे स्मार्टफोन कैमरे के सामने संबोधित किया गया है। फिर वीडियो पर क्लोज़-अप में पैकेज और पता दिखाएं। जब सौदा हो जाए, तो रेटिंग को न भूलें।



कैसे, खरीदार के लिए? विक्रेता का नाम और भुगतान की गई राशि के साथ, अपने भुगतान के प्रमाण की फ़ोटो लें। अनपैकिंग से पहले पैकेज प्राप्त होने पर, खरीदार एक तिपाई पर स्मार्टफोन कैमरे पर स्विच करता है और स्मार्टफोन के साथ एक वीडियो फिल्माना शुरू करता है कि प्राप्त पैकेज कैसा दिखता है। कैमरे में क्लोजअप प्रेषक का नाम दिखाएं। फिर कैमरा चलाने के लिए पैकेज खोलें और सामग्री को तुरंत क्लोजअप में दिखाएं। रेटिंग मत भूलना।



48-h के माध्यम से अपने संदेशों को अपने डीलिंग पार्टनर के साथ टेक्स्ट करें। पैसा या सामान भेजे जाने पर खरीदार और विक्रेता टेक्स्ट कर सकते हैं। दोनों संतुष्टि के पूरा होने तक सौदे से संदेश, फोटो या वीडियो न हटाएं।

संकल्प केंद्र।

यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है जिसे दोनों पक्षों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, तो 48-h समाधान केंद्र से मुक्त मध्यस्थता का अनुरोध किया जा सकता है। समाधान केंद्र का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है।

मुफ्त 48-एच अलर्ट सेवा

अलर्ट न केवल सुविधाजनक हैं, बल्कि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समय बचाने और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण भी हैं। समय की बर्बादी नहीं। खरीदार जो किसी विशिष्ट वस्तु की तलाश में हैं, वे पूरी तरह से 48-h अलर्ट सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं।

अलर्ट के लिए आवेदन करने के लिए अधिकांश मर्चें के लिए पर्याप्त प्रश्रवली भरना है। टिकटों के लिए हालांकि, इष्टतम सतर्कता के लिए एक से अधिक कैटलॉग संकेत का बेहतर उपयोग कर रहा है। टिकटों के लिए दुनिया भर में 4 कैटलॉग, मिशेल, स्कॉट, यवर्ट और स्टेनली गिबन्स का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कैटलॉग विभिन्न cat.nr का उपयोग करते हैं। उसी स्टाम्प के लिए, इष्टतम सतर्कता के लिए, अन्य कैटलॉग से भी समकक्ष कैट.नंबर का उल्लेख करना बुद्धिमानी होगी।



90 दिनों के दौरान यदि कोई वस्तु नीलामी में दिखाई देती है तो आपको अलर्ट द्वारा सूचित किया जाएगा। एक साधारण क्लिक से अलर्ट को और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। टूलबार पर हमेशा हरी घंटी पर ध्यान दें।

नीलामी तथ्य

विक्रेता यह निर्धारित करता है कि किस नीलामी के लिए उसकी वस्तु की नीलामी की जाएगी। 48-h बोली लगाने को बढ़ावा देने के लिए कम या यथार्थवादी शुरुआती कीमतों का उपयोग करने की सिफारिश करता है।

बहुत अधिक खुलने वाली कीमतों को 48-h तक अस्वीकार किया जा सकता है।

नीलामी शुरू होने से कम से कम 48-h पहले वस्तुओं के लिए नीलामी के आवेदन जमा किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आवेदन की समीक्षा की जानी चाहिए और 48-एच द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

एक बार प्रविष्टि स्वीकृत हो जाने के बाद, यह उस तिथि के लिए वांछित नीलामी सूची में दिखाई देगी। यदि अलर्ट अनुरोध हैं, तो अलर्ट उसी समय भेजे जाएंगे जब नीलामी सूची दिखाई देगी।

बोली सूची में एक बार आइटम दिखाई देने के बाद, विक्रेता द्वारा आइटम वापस नहीं लिया जा सकता है। अगली नीलामी (24 घंटे बाद) के बाद बेची गई वस्तुओं को स्वचालित रूप से नीलामी में भेज दिया जाता है, जब तक कि विक्रेता ने यह संकेत नहीं दिया है कि यदि यह नहीं बिकता है तो वे आइटम वापस ले लेंगे।

नीलामी में भाग लेकर, उपयोगकर्ता नियमों और शर्तों में वर्णित वितरण और खरीद दायित्व से सहमत होता है। इस दायित्व का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप निलंबन और विवाद होगा।

चरण बोली मूल्य निर्धारण

मिन। शुरुआती बोली मूल्य	USD 0.05
>> 00.30	USD 0.05
>> \$1.00	0.10
>> \$5.00	0.25
>> \$ 10.00	0.50
>> \$ 20.00	1.00
>> \$ 50.00	2.00
बोली > \$ 100.00	USD 5.00



समय का अंतर

लंदन	24.00h GMT
न्यूयॉर्क	19.00h
लॉस एंजिल्स	16.00h
सिडनी	09.00h
हांगकांग	07.00h
दुबई	03.00h

लदान

लागतों को निष्पक्ष रूप से साझा करने के लिए, विक्रेता को पैकेजिंग लागतों की गणना करने की अनुमति नहीं है। शिपिंग की लागत खरीदार के लिए

है। इसलिए यह खरीदार है जो यह निर्धारित करता है कि अधिग्रहीत वस्तु को कैसे भेज दिया जाएगा, नियमित, पंजीकृत या निजी कूरियर द्वारा। 48-h यूएस\$20 से अधिक के लेनदेन के लिए नियमित मेल का उपयोग न करने की सलाह देता है। ट्रैक एंड ट्रेस सेवा हमेशा बहुत मददगार होती है।

नीलामी के बाद 48-h के माध्यम से विक्रेता और खरीदार को पहले इस पर सहमत होने के लिए संपर्क करना चाहिए। लेन-देन के निष्पादन के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि दोनों सुरक्षित शिपिंग के बारे में वीडियो को ध्यान में रखें।

+ + + +

हमारे बारे में

48-एच कौन है

48-h की स्थापना 2019 में हांगकांग में की गई थी ताकि निजी उपयोगकर्ताओं को संग्रहणीय वस्तुओं में मुफ्त में व्यवहार करने में सक्षम बनाया जा सके। 2023 में 48-h ने वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उद्देश्य वही रहा, 48-h अभी भी एक गैर-लाभकारी नीलामकर्ता मंच है, वाणिज्यिक व्यापार के बाहर त्वरित और सुरक्षित सौदा करने के लिए।

विशेष 48-एच नुस्खा।

निः शुल्क, गति और सुविधा वर्तमान युग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में।



एक नई नीलामी हर दिन आधी रात GMT लंदन समय से शुरू होती है और 48-h तक चलेगी।

अनुकूलित

48-h अलर्ट सेवा इच्छुक पार्टियों के लिए लक्षित सूचना/ध्यान और समय की बचत प्रदान करती है

बस रिपोर्ट करें कि आप क्या खोज रहे हैं और 48-h बाकी काम कर देगा। वस्तु के गुजरने पर आपको एक संकेत प्राप्त होगा। हांगकांग से खरीदारों या हांगकांग क्षेत्रों में शिपमेंट को

छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए कोई कमीशन, वैट या शुल्क नहीं लिया जाता है।

नोटा अच्छा

48-h की नीलामी फेयर ट्रेड एसोसिएशन का एक सदस्य है।

48-h 10 यूएन का समर्थन करता है। फेयर ट्रेड के लिए संशोधन।

48-h किसी भी कमीशन से मुक्त होने के लिए, इसलिए अत्यधिक दान और पदोन्नति पर निर्भर करता है।

48-h उपयोगकर्ताओं को केवल एक खाता रखने की अनुमति है, जिसके लिए उन्हें एक उपयोगकर्ता कोड प्राप्त होता है। इसलिए एक व्यक्ति के पास केवल एक उपयोगकर्ता कोड हो सकता है, जिसके लिए इस नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप तत्काल निलंबन और आगे बहिष्करण होगा। इसके लिए 48-एच की एगोरिथमिक रूप से निगरानी की जाती है (48-h गोपनीयता नीति देखें)

लेन-देन में 48-h कोई पक्ष नहीं है, उपयोगकर्ता उनकी ओर से बेचते और खरीदते हैं।

विवादों को दूर करने के लिए खरीदार और विक्रेता के बीच सीधे संपर्क के लिए 48-h।

48-h उपयोगकर्ताओं को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लेन-देन की निश्चितता को अधिकतम करने के लिए मुफ्त उपयोग के लिए फीडबैक नियमों का पालन करना चाहिए।

प्रतिस्पर्धा और गति को सक्रिय करने के लिए 48-h की नीलामी कम शुरुआती कीमतों को जारी रखती है।

48-h न्यूनतम शिपमेंट लागत की गारंटी देता है, न्यूनतम लागत के लिए संयुक्त शिपमेंट को प्रोत्साहित करता है।



48-h हालांकि उपयोगकर्ता कोड के तहत व्यापार, आप पर कर लगाया जा सकता है, इसलिए कर कार्यालयों को सूचित करने की अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। आय होने के लिए स्थानीय / राज्य सरकार।

+ + + +

FAQ पूछे जाने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. जब मैं पंजीकरण करता हूँ तो क्या मैं एक नया खाता शुरू कर सकता हूँ?

जब आप पंजीकरण करते हैं, तो आपके पास स्वचालित रूप से "मेरा 48-एच" खाता होगा।

2. मैं अपने नए खाते के साथ क्या कर सकता हूँ?

इतिहास और वास्तविक पुराने और खरीदे गए आइटम, मूल्य, पते, संदेश,

3. मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं नया कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप "मेरा पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक कर सकते हैं और एक लिंक भेजा जाएगा जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

4. क्या मैं अपना यूजरकोड बदल सकता हूँ?

एक उपयोगकर्ता कोड अद्वितीय होता है और एक बार दिए जाने के बाद यह आपका बना रहेगा। क्योंकि उपयोगकर्ता कोड आपके सभी डेटा को समाहित करता है, जो उतना ही अनूठा है, इसे बदला नहीं जा सकता। असाधारण मामलों में, 48-एच के विवेक पर, एक उपयोगकर्ताकोड को बदला जा सकता है (48-एच द्वारा प्रदान किया गया), जिससे पुराना कोड 48-एच की प्रणाली में संग्रहीत रहता है।

5. मैं अपना यूजरकोड भूल गया हूँ, क्या आप मुझे अपना यूजरकोड भेज सकते हैं?

यदि आप अपना उपयोगकर्ता कोड भूल जाते हैं, तो आप "मेरा उपयोगकर्ता कोड भूल गए" पर क्लिक कर सकते हैं, अपना पासवर्ड प्रदान करें, सबमिट करें, और उपयोगकर्ता कोड आपको ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

6. क्या मेरे पास एक से अधिक यूजर कोड हो सकते हैं?



एक से अधिक उपयोगकर्ता कोड रखने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका खाता तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

7. मेरा ई-मेल पता बदल गया है, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए?

जब आप अपना ई-मेल पता बदलते हैं, तो आप इसे अपनी प्रोफ़ाइल में जोड़ सकते हैं और अपने पुराने ई-मेल पते को निष्क्रिय कर सकते हैं। पुराना ई-मेल पता 48-एच की प्रणाली में संग्रहीत रहता है।

8. मेरा पता बदल गया है, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए?

जब आप अपना पता बदलते हैं, तो आप इसे अपनी प्रोफ़ाइल में जोड़ सकते हैं और अपने पुराने पते को निष्क्रिय कर सकते हैं। पुराना पता 48-h की प्रणाली में संग्रहीत रहता है।

9. क्या मेरे एक से अधिक खाते हो सकते हैं?

एक से अधिक 48-h खाते रखने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका खाता तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

10. मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रेटिंग देनी है?

सौदा बंद होने के बाद, क्रेता और विक्रेता सौदे को रेट करने के लिए एक आवेदन प्राप्त करते हैं।

11. 2 नकारात्मक रेटिंग के बाद क्या होता है

3 महीने के भीतर दूसरी नकारात्मक रेटिंग के बाद, एक उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। पहला निलंबन तीन महीने तक चलता है, जिसके बाद उपयोगकर्ता स्वतः ही भर्ती हो जाता है। दूसरे निलंबन के बाद, अनुसंधान और 48-h के अनुमोदन के बाद ही उपयोगकर्ता को फिर से भर्ती किया जा सकता है।

13. मैं नीलामियों के लिए कोई नई वस्तु प्रस्तुत नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ ?

पहले प्रक्रिया को दोबारा जांचें, देखें कि रेटिंग देने में कोई बैकलॉग है या नहीं और यह सत्यापित करने के लिए अपना मेल जांचें कि आपका खाता निलंबित कर दिया गया है या नहीं। खरीदार बोली नहीं लगा सकते/विक्रेता रेटिंग या भुगतान किए जाने से पहले आइटम सबमिट नहीं कर सकते।

14. मैं बोली नहीं लगा सकता, मैं क्या कर सकता हूँ?

यदि रेटिंग देने में कोई बैकलॉग है और आप बकाया रेटिंग नहीं दे सकते हैं, जो हमारी मुफ्त सेवा के लिए एक शर्त है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट और सेवाओं के रखरखाव के लिए \$ 1,00 अमेरिकी डॉलर दान करें।



15. आगे बढ़ने के लिए मुझे \$ 1,00 अमेरिकी डॉलर क्यों दान करने होंगे?

नीलामी तक पहुंच बहाल करना मैन्युअल रूप से किया जाता है और केवल 48-h तक सावधानीपूर्वक जांच के बाद किया जाता है।

16. मैं रेटिंग देना भूल गया, मैं क्या कर सकता हूँ?

एक उत्कृष्ट रेटिंग हमेशा, बाद में भी की जा सकती है।

17. मैं दी गई रेटिंग से सहमत नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ?

यदि आप दी गई रेटिंग से सहमत नहीं हैं, तो आपको हमेशा आंतरिक मेल के माध्यम से पहले मूल्यांकनकर्ता से संपर्क करना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो अच्छे तर्क रखें और यदि आप मूल्यांकनकर्ता के साथ इसका समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आप समाधान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। समाधान केंद्र द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता है।

18. मुझे अपने बेचे गए सामान का भुगतान नहीं मिला

जांचें कि क्या आपने चालान भेजा है और खरीदार को उनकी खरीदारी के बारे में याद दिलाएं। पूरा नहीं होने की स्थिति में, विक्रेता खरीद को रद्द कर सकता है और अगली नीलामी के लिए आइटम जमा कर सकता है। विक्रेता को एडमिन को सूचित करना होगा। इस घटना के बारे में। विक्रेता को त्याग करने वाले खरीदार को सही रेटिंग देना नहीं भूलना चाहिए।

19. मुझे खरीदे गए और भुगतान किए गए आइटम नहीं मिले।

यदि ट्रैक एंड ट्रेस कोड कोई प्रगति नहीं दर्शाता है, या जब शिपमेंट के आगमन के ट्रैक एंड ट्रेस समय के बिना भेज दिया गया है, तो तुरंत विक्रेता से संपर्क करें। यह विक्रेता है जिसे डाक अधिकारियों के साथ कार्रवाई करनी है।

20. मुझे खरीदे गए सामान का चालान नहीं मिला

यदि 48 घंटों के भीतर आपकी खरीदारी का कोई चालान नहीं आता है, तो विक्रेता से संपर्क करें और चालान के लिए पूछें। अगर चालान आवेदन के 48 घंटे के भीतर नहीं आता है, तो खरीदार खरीद का त्याग कर सकता है। विक्रेता को पता होना चाहिए कि त्याग के इस मामले में एक नकारात्मक रेटिंग का पालन होगा।

21. एक ही विक्रेता से अधिक आइटम खरीदे गए, संयुक्त शिपमेंट

यदि आपने एक ही विक्रेता से अधिक आइटम खरीदे हैं, तो आपको एक संयुक्त शिपमेंट की पेशकश की जाएगी, कोई अतिरिक्त पैकेजिंग लागत नहीं, और मामूली शिपिंग लागत पर।

22. यदि प्राप्त वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है तो क्या करें?



यदि आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में आती है, तो पैकेजिंग और वस्तु की तस्वीरें लें, विक्रेता से तुरंत संपर्क करें, और व्यवस्था करें कि कैसे/यदि वस्तु को वापस किया जाना चाहिए।

23. यदि प्राप्त वस्तु मेरे द्वारा खरीदी गई वस्तु नहीं है तो क्या करें ?

यदि कोई ऐसा आइटम आया है जिसे आपने खरीदा नहीं है, तो आइटम और पैकेज की तस्वीरें लें, विक्रेता से तुरंत संपर्क करें, और यह व्यवस्था करें कि कैसे/यदि आइटम वापस किया जाना चाहिए और सही खरीदारी कैसे प्राप्त की जा सकती है।

24. यदि प्राप्त शिपमेंट पूरा नहीं हुआ है तो क्या करें?

यदि आपके द्वारा खरीदा गया आइटम अधूरा आता है, घटकों की कमी होती है, तो फोटो लें, विक्रेता से तुरंत संपर्क करें, और यह व्यवस्था करें कि कैसे/यदि आइटम वापस किया जाना चाहिए और सही खरीदारी कैसे प्राप्त की जा सकती है।

25. मैं मध्यस्थता के लिए समाधान केंद्र से कैसे संपर्क कर सकता हूँ?

पाद लेख के माध्यम से सक्रिय होने के लिए, संपर्क पृष्ठ के माध्यम से समाधान केंद्र से संपर्क करना।

26. सतर्क-सेवा क्या है?

48-h अलर्ट-सेवा उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए है। दुर्लभ वस्तुओं के लिए, जब ये नीलामी में दिखाई देते हैं तो खरीदार को अधिसूचित किया जा सकता है। अधिकतम के लिए अलर्ट लागू करें। 90 दिनों के दौरान 3 आइटम।

27. क्या मैं 3 से अधिक अलर्ट-आइटम के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

अलर्ट-सर्विस के लिए 90 दिनों के दौरान अधिकतम 3 अलग-अलग आइटम हैं।

28. क्या अलर्ट-सर्विस का तीन माह बाद विस्तार संभव है?

एप्लिकेशन को नवीनीकृत करके चुने गए आइटमों के लिए एक्सटेंशन अलर्ट-सेवा संभव है।

29. स्टैम्प अलर्ट-सर्विस के लिए 2 या 3 कैट.एनआर एक से बेहतर क्यों हैं?

3 कैट एनआरएस। हिट होने की संभावना को दोगुना कर देता है, क्योंकि कई पेशकश किए गए टिकटों में केवल एक कैट होता है। संकेत।

30. जब मैं वस्तुएँ बेचता हूँ तो क्या मुझे करों या अन्य खर्चों का भुगतान करना पड़ता है?



48-h की नियमित सेवा निःशुल्क है। कोई कर नहीं रोका जाता है, क्योंकि ये किसी भी मामले में, उपयोगकर्ताओं और उनके संबंधित कर अधिकारियों का मामला है।

31. मेरी प्रोफ़ाइल की जानकारी का क्या होता है?

आपकी प्रोफ़ाइल के लिए प्रदान की गई जानकारी को 48-एच-द्वारा गोपनीय रखा जाता है। आपराधिक मामलों को छोड़कर, तीसरे पक्ष के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी, हांगकांग के अधिकारियों द्वारा ऐसा करने के लिए 48-एच कहा जाता है।

32. मेरी बिक्री की जानकारी का क्या होता है?

हांगकांग के बाहर प्राप्त आपकी बिक्री और राजस्व के बारे में सभी जानकारी गोपनीय रखी जाती है और तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाएगी।

33. मेरी खरीदारी की जानकारी का क्या होता है?

हांगकांग के क्षेत्रों के बाहर प्राप्त और अग्रपिठ आपकी खरीद के बारे में सभी जानकारी गोपनीय रखी जाती है और तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाएगी।

34. यह कैसे जांचें कि कोई वस्तु 48-एच नीलामी के माध्यम से बेची जा सकती है या नहीं?

48-एच पर सौदा करने के लिए अनुमत वस्तुओं के लिए हमारे नियम और शर्तें देखें

35. क्या खरीद के लिए कोई गारंटी योजना है?

शिपमेंट से पहले, दौरान या शिपमेंट से होने वाली क्षति और दोषों के बारे में शिकायतों के लिए जो आइटम के विवरण में रिपोर्ट नहीं की गई हैं, आपको प्राप्ति के 48 -h के भीतर जवाब देना होगा। छिपे हुए नुकसान या नकली सामान की सूचना नहीं देने पर, 6 सप्ताह की वारंटी अवधि लागू होती है, जिसके दौरान खरीदार को विशेषज्ञता के साथ या उसके बिना रिपोर्ट करनी चाहिए।

36. मैं विक्रेता से कैसे संपर्क कर सकता हूँ, सम्मान। खरीदार?

नीलामी के बाद खरीदार और विक्रेता वेबसाइट के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। खरीदी/बेची गई वस्तुओं के अवलोकन पर, संदेशों के लिए टेक्स्टबॉक्स खोलने के लिए "उपयोगकर्ता से संपर्क करें" बटन को सक्रिय करें। संदेश "पोस्ट इन" और "पोस्ट आउट" में "माई 48-एच" में सहेजे जाएंगे।

37. शिपमेंट नियमित, पंजीकृत मेल, कूरियर या ट्रैक एंड ट्रेस?

आइटम के आकार और मूल्य के आधार पर, यह खरीदार पर निर्भर करता है कि किस तरह का शिपमेंट; नियमित डाक या कूरियर। 48-एच अत्यधिक अनुशंसा करता है कि कम से कम ट्रैक एंड ट्रेस करें और मूल्यवान शिपमेंट के लिए पंजीकृत मेल।



38. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन-सी वस्तुएँ खरीदी हैं

एक क्रेता के पास अपने 48-एच खाते में हमेशा अपनी बोली और खरीदी गई वस्तुओं के लिए एक अलग अवलोकन होता है।

39. किसी वस्तु को कैसे बेचा जाए ?

विक्रेता पहले नीलामी का दिन चुनते हैं, संग्रहणीय का प्रकार, बेचने के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए मोटी सूची का उपयोग करें, फोटो अपलोड करें। जब तैयार हो >> विकल्प 1 अगला आइटम, या आवेदन जमा करें।

40. बेचने के लिए प्रकाशित होने से पहले अनुमोदन में कितना समय लगता है?

चयनित नीलामी में आइटम को बेचने के लिए आवेदन: Catalogenr + ThickingList संग्रहणीय incll फोटो, पहले 48-घंटे तक अनुमोदित होना चाहिए, इससे पहले कि आइटम नंबर के साथ ओके दिया जा सके।

41. बेचते समय थिकिंगलिस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

थिकिंगलिस्ट पर दी गई जानकारी स्वचालित रूप से आइटम विवरण (समान स्थिति) में दिखाई देती है।

42. क्या विक्रेता नीलामी की तिथि चुन सकता है ?

विक्रेता एक विशिष्ट तिथि (= नीलामी संख्या) चुनकर भविष्य की नीलामी के लिए आइटम जमा कर सकते हैं, जो वर्ष के दिन और महीने की संख्या को इंगित करता है। उदाहरण: 6. अगस्त 2023 = नीलामी 06.08.23

43. दिखाई क्यों नहीं देता, वस्तु का विक्रेता कौन है ?

विक्रेता के आइटम से, विक्रेता का कोई संकेत दिखाई नहीं देगा (कोई नाम नहीं, कोई ईमेल नहीं और कोई उपयोगकर्ता कोड नहीं), बस रेटिंग। 48-एच के लिए, विवेक का अत्यधिक महत्व है। इस कारण विक्रेता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिभार के बाद, खरीदार को विक्रेता के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है।

44. क्या एक ही विक्रेता से वस्तुओं पर बोली लगाना संभव है ?

यदि ग्राहक उसी विक्रेता से अन्य वस्तुओं पर बोली लगाना चाहते हैं, जो केवल चल रही नीलामी के लिए संभव है, तो यह "एस.एस." बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है।

45. मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक नया संदेश प्राप्त हुआ है?

नेविगेशन बार (शीर्ष) पर एक हरे रंग का संकेत चिन्ह नए आने वाले संदेशों के बारे में चेतावनी देता है।

46. नीलामी बंद होने का समय क्या है ?



नीलामी में सभी वस्तुओं के बंद होने का समय उनके शुरू होने के ठीक 48-h बाद है, जिसका अर्थ है लंदन के समयानुसार प्रतिदिन 24.00h G.M.T।

47. संदेश का क्या अर्थ है: आप इस विक्रेता से आइटम पर बोली नहीं लगा सकते।

विक्रेता कुछ उपयोगकर्ताओं/पूर्व खरीदारों को ब्लॉक करने के लिए फ़िल्टर सक्रिय कर सकते हैं। ये उपयोगकर्ता इस विक्रेता के आइटम पर बोली नहीं लगा सकते (यह संदेश दिखाई देगा)।

48. मेरी बोली हरे से काले रंग में फिर से क्यों बदल गई है ?

बोली मूल्य केवल उस उपयोगकर्ता के लिए हरे रंग में दिखाई देता है जो उस समय सबसे अधिक बोली लगाने वाला होता है।

+ + + +

जाँच करना	Legend
संपर्क करें	Contact us
एक बग रिपोर्ट करो	Report a bug
व्यवस्थापक से संपर्क करें	Contact Admin.
जमा करना	Submit
उपयोगकर्ता ना	Username
पासवर्ड	Password
पासवर्ड भूल गए	Forgot password
दाखिल करना	Log in
घ	Home



1% के लिए

48-h गैर-लाभकारी और निःशुल्क,
दान पर निर्भर
संतुष्ट हैं?

रखरखाव के लिए 1% दान देकर
हमारा सहयोग करें / हमारी सेवा



48-h की शर्तें और नियम

किंवदंती: 48-h = साइट

यदि आप इस साइट पर भाग लेना चाहते हैं, लेन-देन करना या कुछ बेचना चाहते हैं, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, एक खाता बनाना होगा और एक उपयोगकर्ता कोड प्राप्त करना होगा। विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से प्रतिक्रिया सिस्टम के लिए, यूजर को केवल एक खाता और एक उपयोगकर्ता कोड रखने की अनुमति है। खोज लिस्टिंग और वेबसाइट पर केवल आपका उपयोगकर्ता कोड दिखाई देगा। यूजर के बीच या साइट के साथ संचार उपयोगकर्ता कोड के तहत होता है। जब लेन-देन पूरा होता है, तब अंतिम बिल पर आपका नाम और ईमेल पता दिखाई देगा। शिपमेंट या भुगतान पूरा होने से पहले पते की पुष्टि होनी आवश्यक है।

उपयोगकर्ता केवल अपने खाते के लिए अपनी ओर से बोली लगाते हैं। ध्यान दें, चल रही नीलामी में लगाई गई बोली वापस नहीं ली जा सकती, यह अंतिम होती है। चल रही नीलामी में प्रारंभिक कीमतें बदली नहीं जा सकतीं।

नोट: नीलामी खोज-लिस्टिंग में आइटम, शुरुआती बोली मूल्य और विवरण नीलामी शुरू होने तक बदले या हटाए जा सकते हैं

खरीदार के रूप में, आपको केवल बोली की कीमत और सही शिपिंग शुल्क का भुगतान करना होता है। शिपमेंट के लिए एयर मेल, रजिस्टर्ड मेल, और/या ट्रैक एंड ट्रेस सेवाओं की सिफारिश की जाती है। शिपिंग लागत का भुगतान खरीदार करता है। चूंकि खरीदार शिपिंग का तरीका और लागत (बीमा सहित) चुनता है, उसे यह समझना चाहिए कि अगर वह बिना रजिस्टर्ड और बिना ट्रैक एंड ट्रेस वाली शिपिंग चुनता है, तो उसी समय से शिपमेंट की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की हो जाती है। सेलेर को शिपमेंट भेजने के तुरंत बाद खरीदार को पोस्ट पैकेट कोड और ट्रैक एंड ट्रेस नंबर की जानकारी देनी होती है। दुर्भाग्यवश, कुछ क्षेत्रों में सामान्य डाक सेवाएं 100% भरोसेमंद नहीं होतीं, ऐसे मामलों में निजी डाक सेवाओं की सिफारिश की जाती है। निजी सेवाओं से भेजे और प्राप्त किए जाने की पुष्टि स्वचालित रूप से सेलेर और खरीदार दोनों को हो जाती है।

सेलेर को लेन-देन के लिए कभी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए शिपमेंट के लिए वास्तविक डाक शुल्क से अधिक कभी न मांगें।



सेलेर पैकेजिंग का खर्च उठाता है, जबकि खरीदार डाक का भुगतान करता है। सेलेर हमेशा खरीदार के साथ मिलकर वस्तुओं को एक ही शिपमेंट में भेजने का प्रयास करेगा ताकि लागत कम हो सके।

साइट उम्मीद करती है कि खरीदार चालान भेजने के 48 घंटे के भीतर खरीदी गई वस्तुओं की पूरी कीमत, जिसमें डाक शुल्क भी शामिल है, चुका दें।

साइट आरक्षित करेंसी के रूप में यूएसडॉलर का उपयोग करती है।

मध्यम और वास्तविक प्रारंभिक बोलियां सबसे तेज़ और संतोषजनक लेन-देन की गारंटी देती हैं। साइट लगभग 99.9% गारंटी देती है कि नीलामी में रखी गई सभी वस्तुएं बिक जाएंगी।

नए आइटम सेलेर द्वारा चुने गए नए 48-घंटे-फ़ोल्डर में वर्गीकृत किए गए हैं।

हर दिन लंदन (ग्रीनविच मीन टाइम) में सुबह 00:00 बजे एक नया 48 घंटे का फ़ोल्डर शुरू होता है। हर नीलामी फ़ोल्डर का समापन 48 घंटे बाद, मध्यरात्रि 24:00 बजे GMT में होता है। खरीदारों को ध्यान दिलाया जाता है कि जब एक बोली लगाई जाती है, तो यह अंतिम होती है, इसलिए खरीदारों को जिम्मेदारी से बोली लगानी चाहिए।

पहली नीलामी राउंड में न बिकने वाले आइटम स्वचालित रूप से अगले नीलामी राउंड (+ 48 घंटे) में US\$ 0.05 के शुरुआती बोली मूल्य के साथ स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जब तक कि सेलेर बिक्री आवेदन में यह नहीं बताता कि आइटम को वापस लेना है।

याद रखें: नीलामी के दौरान आइटम को वापस नहीं लिया जा सकता।

आइटम को अच्छी तरह से वर्णित और वर्तमान कैटलॉग के अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए (जैसे स्टाम्प के लिए माइकल या स्कॉट, सिक्कों और बैंक नोट्स के लिए क्रॉज़)। सेलेर अतिरिक्त रूप से अन्य कैटलॉग (संख्या) का उल्लेख कर सकते हैं। खरीदार जिस आइटम की खोज कर रहे हैं, उसके लिए वे अलर्ट सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साइट आपको 90 दिनों तक स्वचालित रूप से ईमेल अलर्ट भेजेगी जब यह आइटम सूचीबद्ध किया जाएगा। 90 दिनों के बाद, आपको अपने अलर्ट आवेदन को फिर से करना होगा।

साइट का मुफ्त उपयोग करने के लिए यूजर से अनुरोध है कि वे हमारे फ़ीडबैक सिस्टम में शामिल हों, ताकि हम सब अपनी अच्छी पहचान बना सकें।



फीडबैक सिस्टम

साइट संतोष को पारदर्शिता के साथ संरचना करती है।

फीडबैक सिस्टम 5 सितारों के साथ काम करता है। ये सितारे खोज सूची में उपयोगकर्ता कोड के बगल में दिखाई देते हैं, और हमेशा उसकी एवरेज रेटिंग दिखाते हैं। उपयोगकर्ता कोड पर "क्लिक" करने से उसकी रेटिंग का इतिहास दिखाई देगा।

ऊपर, सभी रेटिंग का एवरेज दिखता है, और नीचे पिछले 5 रेटिंग्स दिखती हैं, जो पिछले 5 लेन-देन की रेटिंग्स बताती हैं। सभी रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता अन्य रजिस्टर्ड यूजर द्वारा दी गई रेटिंग्स को देख सकते हैं। सभी रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता कोड की रेटिंग का इतिहास पूरी तरह से देखा जा सकता है।

नीलामी सेवा मुफ्त है जब तक उपयोगकर्ता हमारे फीडबैक सिस्टम में शामिल होते हैं। जो उपयोगकर्ता हमारे फीडबैक प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, उनसे वेबसाइट के खर्चों को कवर करने के लिए लेन-देन का 1% देने के लिए कहा जाएगा। अगर कोई फीडबैक भूल गया है, तो उपयोगकर्ता को अगली लेन-देन में एक याद दिलाने वाला संदेश मिलेगा, जिसमें वह 1% योगदान देने या पहले की रेटिंग देने का विकल्प चुन सकता है।

साइट के लिए सेलेर और खरीदार दोनों द्वारा इस फीडबैक सिस्टम का अच्छा उपयोग महत्वपूर्ण है। सेलेर और खरीदार के फीडबैक को साझा करके प्रतिष्ठा को दिखाना इस खरीद-फरोख्त सिस्टम को विश्वास और ईमानदारी के साथ चलाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

समाधान

साइट यूजर से अपेक्षा करती है कि यदि एक पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो वे हमेशा

पक्ष से संपर्क करें और सुधार या समाधान के लिए पूछें, पहले फीडबैक देने से। यदि फीडबैक दिया गया है और दूसरा पक्ष इससे सहमत नहीं है, तो उन्हें पहले संपादक से टिप्पणियों, सवालों और शिकायतों के साथ संपर्क करना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता अभी भी असहमत है, तो वे समाधान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

छिपे हुए दोष या मरम्मत किए गए आइटम को सही से बताना और घोषित करना चाहिए।

नकली, फर्जी या धोखाधड़ी की कॉपी नीलामी में नहीं आनी चाहिए।

साइट तुरंत पूछताछ के लिए सस्पेंशन लगाती है। तथ्यों के आधार पर, साइट सदस्यता खत्म करने की सजा दे सकती है।



यदि समझौते से समाधान संभव नहीं है, तो साइट सुझाव देती है कि इसे फीडबैक रेटिंग में बताया जाए, या सौदा रद्द किया जाए। अत्यधिक मामलों में, उपयोगकर्ता साइट समाधान केंद्र में अपील कर सकते हैं (जो सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होगा)।

यदि सेलेर और खरीदार के बीच समझौता संभव नहीं है, तो किसी एक या दोनों पक्षों के लिए सौदे को निगेटिव रेटिंग देने का विकल्प खुला है। यह समझते हुए कि बिना वजह की गई निगेटिव रेटिंग्स को साइट समाधान केंद्र में चुनौती दी जा सकती है, जो अंतिम और बाध्यकारी निर्णय देगा। बिना वजह की गई निगेटिव रेटिंग्स से चेतावनी मिलेगी, और बार-बार चेतावनियों से सस्पेंशन हो सकता है।

निगेटिव रेटिंग्स यदि बार-बार नहीं होतीं, तो धीरे-धीरे गायब हो जाएंगी, लेकिन सभी रेटिंग्स का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा।



1% के लिए

48-h गैर-लाभकारी और निःशुल्क,
दान पर निर्भर

संतुष्ट हैं?

रखरखाव के लिए 1% दान देकर
हमारा सहयोग करें / हमारी सेवा

48-h बिक्री की शर्तें

1. साइट पर बिक्री मुफ्त है, और साइट को कोई फीस या कमीशन नहीं देना है।

साइट सभी नीलामियों को संग्रहणीय वस्तुएं बेचने के लिए है।

2. सभी असली और मूल आइटम बेचे जा सकते हैं। प्रोडक्शंस और फोटो कॉपी को साफ-साफ बताना चाहिए। नकली और गलत उत्पादों की अनुमति नहीं है। ऐसे आइटम नीलामी से हटा दिए जाएंगे और सेलेरको साइट से तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। सेलेरपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि यह एक अपराध है।

3. साइट के पास नीलामी से संग्रहणीय वस्तुएं, सेलेर और खरीदारों को बाहर करने का पूरा अधिकार है।

4. साइट और उपयोगकर्ता बहुत दुर्लभ आइटम के लिए प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि विश्वास साइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।



5. खरीदार को आइटम प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर सौदा रद्द करने का अधिकार है, जब आइटम या उसके कुछ हिस्से असली नहीं हैं और यह घोषित नहीं किया गया था। खरीदार को आइटम प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर जांच और प्रमाणन के लिए 14 दिनों की अवधि मांगनी होगी।

6. एक बार जब नीलामी फोल्डर जारी हो जाता है, तो आइटम को वापस लेना संभव नहीं है। नीलामी तब तक अंतिम होती है जब तक आइटम बिक नहीं जाता। सेलेरशुरुआती बोली की कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, साइट कम शुरुआती बोली की कीमत की सिफारिश करती है।

7. नीलामियां रोज होती हैं, हफ्ते में 7 दिन, दैनिक नीलामी फोल्डर्स में। फोल्डर का नाम उस तारीख पर होता है जिस दिन नीलामी शुरू होती है। नीलामी की अवधि 48 घंटे होती है। सेलेर अपनी वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए नीलामी फोल्डर चुनने के लिए स्वतंत्र है। नीलामी शुरू होने तक, सेलेर घोषणा, नीलामी फोल्डर बदलने, योजना बनाने या आइटम वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। नीलामी शुरू होने के बाद, यह अंतिम होती है और आइटम सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा। यदि आइटम नहीं बिकता, तो इसे स्वचालित रूप से अगली नीलामी में US\$ 0.05 की शुरुआती बोली के साथ स्थानांतरित किया जाएगा। ध्यान दें: नीलामी के दौरान आइटम को वापस नहीं लिया जा सकता।

8. भुगतान प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर, सेलेर को आइटम खरीदार को भेजना होगा। सेलेर को आइटम की अच्छी पैकिंग और सुरक्षित शिपमेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। वास्तविक डाक शुल्क से अधिक मांगना अनुमति नहीं है। कई आइटम के लिए एक संयुक्त शिपमेंट खरीदार को प्रदान करना अनिवार्य है।

9. खरीदार और सेलेर को लेन-देन समाप्त होने से पहले सहमत और संतुष्ट होना चाहिए। गलतफहमियां दूर की जानी चाहिए और समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। लेन-देन के निपटारे, भुगतान और आइटम प्राप्त होने के बाद, सेलेर और खरीदार लेन-देन का मूल्यांकन करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं।

10. फीडबैक का मतलब है पूरी लेन-देन की पुष्टि करना, आइटम के विवरण से लेकर आइटम/पैसे प्राप्त करने तक। यदि खरीदार और सेलेर दोनों संतुष्ट हैं, तो उन्हें लेन-देन को सकारात्मक रूप से मान्य करना चाहिए, यानी हरे सितारे के साथ। यदि खरीदार या सेलेर निपटारे के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो वे निगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, जिसका मतलब है लाल सितारा। दोनों असंतुष्ट हो सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, जिससे दोनों को निगेटिव फीडबैक मिल सकता है।

रेटिंग्स 48-h के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रतिभागियों के हित में हैं। अगर फीडबैक रेटिंग के लिए याद दिलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से



निलंबित कर दिया जाएगा। इस स्थिति में, उपयोगकर्ता के लिए आइटम्स पर बोली लगाना या उन्हें जमा करना असंभव हो जाएगा। लेकिन यूजर के पास बाद में रेटिंग देकर फिर से सक्रिय होने का अवसर होता है। यदि उपयोगकर्ता रेटिंग देना नहीं चाहता है, तो वह 0.25 अमेरिकी डॉलर का दान देकर सस्पेंशन हटा सकता है। यह दान केवल 24-h वेबसाइट के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा।

11. साइट फीडबैक के लिए 'दो बार की चेतावनी' विधि का उपयोग करती है। यदि किसी सेलेरया खरीदार को 2 महीनों में 2 अलग-अलग लोगों से 1-स्टार रेटिंग मिलती है, तो उसे स्वचालित रूप से 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। सेलेर और खरीदार को हमेशा समझौता करना चाहिए और समस्या को हल करना चाहिए। यदि किसी उपयोगकर्ता को बार-बार निगेटिव फीडबैक मिलते रहते हैं, तो साइट निर्णय लेगी कि उस उपयोगकर्ता को आगे की भागीदारी से बाहर कर दिया जाए।

12. संदेह या शिकायतों की स्थिति में, साइट उपयोगकर्ता से धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकारी आईडी की कॉपी और संबंधित बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांग सकती है, या फिर पंजीकरण और भागीदारी को निलंबित कर सकती है।

13. यूजर को साइट का उपयोग प्रचार, विज्ञापन या अन्य निजी उद्देश्यों के लिए (दुरुपयोग) करने की अनुमति नहीं है।

14. कोई आइटम बेचने के लिए, सेलेर पहले नीलामी फोल्डर का दिन चुनता है, फिर सभी आवश्यक जानकारी भरता है और आइटम या कलेक्शन की साफ-सुथरी तस्वीरें अपलोड करता है। चल रही नीलामी में आइटम बेचने का विकल्प नहीं है। बेहतर दृश्य या विवरण के लिए दूसरी या अधिक तस्वीरें अपलोड करना अक्सर सलाह दी जाती है। जानकारी भरने के बाद, आइटम को स्वचालित रूप से एक आइटम नंबर दिया जाएगा। भविष्य के नीलामी फोल्डर दिखाई नहीं देते, केवल 2 चल रहे फोल्डर दिखाई देंगे। सभी नीलामी फोल्डर के लिए 48 घंटे की समयसीमा लागू होती है। मध्यरात्रि से शुरू होकर, सभी नीलामी फोल्डर की अंतिम समयसीमा 48 घंटे बाद लंदन समय के अनुसार रात 12:00 बजे होती है। 00:00 GMT पर ही अलर्ट ईमेल जारी किए जाते हैं।

15. सुलह केंद्र: यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है जिसे दोनों पक्ष हल नहीं कर सकते, तो 48-घंटे सुलह केंद्र से मुफ्त मध्यस्थता की मांग की जा सकती है। सुलह केंद्र का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

16. आइटम खोजने के लिए मुफ्त 48-घंटे अलर्ट सेवा: 90 दिनों के लिए, और इसे बढ़ाया जा सकता है। अलर्ट के लिए आवेदन करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग करें (स्टैप के लिए, सर्वोत्तम अलर्ट के लिए एक से अधिक कैटलॉग सूचियों का उपयोग करें:



Michel, Scott, Yvert और Stanley Gibbons)। अलर्ट के लिए, टूलबार पर हरे चिन्ह पर ध्यान दें।

17. साइट में शामिल होने और भाग लेने पर, आप पूरी तरह से और बिना शर्त साइट की शर्तों और नियमों से सहमत होते हैं। साइट पर सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए केवल सेलेर ही जिम्मेदार होता है। इसका कारण यह है कि साइट केवल बिक्री के लिए स्थान प्रदान करती है और किसी भी लेन-देन में भागीदार नहीं है।

18. न18. असली आइटम नहीं, बल्कि नाम, ब्रांड या कैटलॉग नंबर के साथ वर्णित, नकली, झूठे, प्रतिकृतियां या नए प्रिंट नीलामी में अनुमति नहीं हैं। सेलेर सटीक विवरण और वर्गीकरण की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। अधिकारी और ब्रांड मालिक जमा की गई वस्तुओं पर दावा कर सकते हैं और उन्हें जब्त कर सकते हैं और जमाकर्ता के खिलाफ एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लाभार्थियों की गंभीर शिकायतें >> का अर्थ है साइट द्वारा सदस्यता रद्द करना, सस्पेंशन या यहां तक कि सदस्यता समाप्त करना।



1% के लिए

48-h गैर-लाभकारी और निःशुल्क,
दान पर निर्भर

संतुष्ट हैं?

रखरखाव के लिए 1% दान देकर
हमारा सहयोग करें / हमारी सेवा